



## प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 20.01.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

पुलिस लाइन खीरी में आगामी गणतन्त्र दिवस को होने वाली परेड का रिहर्सल; पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा परेड का निरीक्षण कर दिये गए आवश्यक दिशा-निर्देश



आज दिनांक 20.01.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा पुलिस लाइन खीरी में आगामी गणतन्त्र दिवस को होने वाली परेड की रिहर्सल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान परेड निकाली गई। रिहर्सल में पुलिस अधीक्षक महोदय की गाड़ी को परेड ने सलामी दी। महोदय द्वारा रिहर्सल में झंडारोहण कर सैल्यूट किया गया। टोली और दस्तों में शामिल पुलिसकर्मियों द्वारा अपना कौशल दिखाया गया। परेड को अधिक प्रभावी बनाने के लिए महोदय द्वारा चौकीदारों व भूतपूर्व सैनिकों को भी परेड में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में आदेशित किया गया।

## पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया



आज दिनांक 20.01.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गेणश प्रसाद साहा की अध्यक्षता में पुलिस लाईन सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। उक्त गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं पुलिस कार्यालय सहित समस्त शाखाओं के प्रभारी आदि अधिकारीगण सम्मिलित हुए।

मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में घटित आपराधिक घटनाओं से संबंधित पंजीकृत अभियोगों एवं लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए समयबद्ध रूप से गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। हत्या, दुष्कर्म, लूट आदि जघन्य अपराधों के अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने, बरामदगी हेतु शेष अपहृताओं की सकुशल बरामदगी, पुरुष्कार घोषित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने एवं शांति अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने, गुंडा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर की कार्यवाही करने व गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। गम्भीर अपराधों, पाँक्सों एक्ट, बलात्कार आदि के अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु भी निर्देश दिये गये। चोरी, नकबजनी व वाहन चोरी की घटनाओं पर अकुश लागने हेतु कार्य योजना तैयार करके प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, ब्रिकी व परिवहन के विरुद्ध अभियान चलाकर इनकी रोकथाम एवं ऐसे कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जनशिकायतों की त्वरित व निष्पक्ष जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने, अवैध शराब के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने, जमीनी विवादों के संबंध में सतर्कता रखने व इसकी रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों को प्रेषित करने, अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के शस्त्र निरस्तीकरण की रिपोर्ट देने, आईजीआरएस के आवेदकों से स्वयं वार्ता करके फीडबैक लेने, पीआरवी वाहनों की रैंडम चेकिंग कर उनकी सतर्कता का निरीक्षण करने आदि के संबंध में निर्देश दिए गए। थानों पर दाखिल विभिन्न अभियोगों से संबंधित माल मुकदमाती के विधिक निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये।

**थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, 01 नफर अभियुक्त अवधेश जयसवाल को चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया**



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धौरहरा महोदय के मार्गदर्शन में आज दिनांक 20.01.2023 को थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 24/2023 धारा 379/411 भादवि0 का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त अवधेश जयसवाल पुत्र धनीराम जयसवाल को चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल सहित नहर पुलिया बहद् ग्राम मौजमाबाद से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

अवधेश जयसवाल पुत्र धनीराम जयसवाल निवासी ग्राम मौजमाबाद थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी

**बरामदगी का विवरण-**

चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 नागेन्द्र कुमार पाण्डेय, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
2. मुख्य आरक्षी सुरेन्द्र कुमार, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
3. आरक्षी गुरविन्दरसिंह, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी

## थाना भीरा पुलिस द्वारा, 04 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 20.01.2023 को थाना भीरा पुलिस द्वारा 04 नफर वारंटी अभियुक्तों 1. भगौती प्रसाद पुत्र मथुरा नि0ग्राम मटेहिया थाना भीरा जनपद खीरी 2. रामऔतार पुत्र मिश्रीलाल नि0ग्राम मटेहिया थाना भीरा जनपद खीरी 3. अयोध्या प्रसाद पुत्र कढिले नि0ग्राम मटेहिया थाना भीरा जनपद खीरी संबंधित केस नं0 7373/10 धारा 149/427/504 भादवि0 न्या0 श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट, 4. संजय गुप्ता पुत्र राम स्वरूप नि0ग्राम भीरा थाना भीरा जनपद खीरी केस नं0 1200/21 धारा 128 द0प्र0सं0 ता0 पेशी 27.01.2023 केस नं0 1198/21 धारा 128 द0प्र0सं0 ता0पेशी 27.01.23, केस नं0 1204/21 धारा 128 द0प्र0सं0 ता0पेशी 27.01.23, केस नं0 1199/21 धारा 128 द0प्र0सं0 ता0पेशी 27.01.23 को गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार शुदा वारंटी अभियुक्त गणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु लखीमपुर खीरी भेजा गया।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. भगौती प्रसाद पुत्र मथुरा नि0 ग्राम मटेहिया थाना भीरा जनपद खीरी
2. रामऔतार पुत्र मिश्रीलाल नि0 ग्राम मटेहिया थाना भीरा जनपद खीरी
3. अयोध्या प्रसाद पुत्र कढिले नि0 ग्राम मटेहिया थाना भीरा जनपद खीरी
4. संजय गुप्ता पुत्र राम स्वरूप नि0ग्राम भीरा थाना भीरा जनपद खीरी

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 आलोक कुमार राय, थाना भीरा
2. आ0 संजय सिंह
3. आ0 संजीव कुमार
4. आ0 अमित कुमार
5. आ0 विशाल कुमार

## थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा, 01 नफर वारंटी अभियुक्त अस्लम पुत्र चुन्ना को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 20.01.2023 को थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा अ0सं0 339/09 धारा 147/148/323/352/307 भादवि0 में वारंटी अभियुक्त अस्लम पुत्र चुन्ना निवासी फरेन्द्र फार्म थाना तिकुनिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अस्लम पुत्र चुन्ना निवासी फरेन्द्र फार्म थाना तिकुनिया जनपद खीरी

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 बलराम सिंह, थाना तिकुनिया
2. का0 गौरव

## थाना खीरी पुलिस द्वारा, 02 नफर अभियुक्तों को अवैध तमंचा, कारतूस व चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के मार्गदर्शन में आज दिनांक 20.01.2023 को थाना खीरी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 02 नफर अभियुक्तों 1.शिवम मिश्रा उर्फ छोटू पुत्र पुतान मिश्रा नि० खानपुर गुरेला थाना व जनपद खीरी 2.अखिलेश उर्फ टमाटर पुत्र रामसनेही नि० खानपुर गुरेला थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से थाना खीरी क्षेत्र से की गयी चोरी मो०सा० को बरामद किया गया तथा एक अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा० न्यायालय भेजा जा रहा है।

### बरामदगी का विवरण:-

- 01 अदद मोटरसाइकिल
- 01 अदद तमंचा 315 बोर
- 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

### अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 22/23 धारा 379/411 भादवि बनाम शिवम मिश्रा उपरोक्त व अखिलेश उपरोक्त
2. मु०अ०सं० 23/23 धारा 3/25 A.ACT थाना खीरी बनाम अखिलेश उर्फ टमाटर उपरोक्त

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० ओमप्रकाश सरोज (चौकी प्रभारी ओयल) थाना खीरी
2. हे०का० दशरथ यादव
3. का० अंकित कुमार
4. का० शिवा सिंह

## थाना फरधान पुलिस द्वारा, 01 नफर वारंटी अभियुक्त मो० इशतियाक खा पुत्र इशहाक खां को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 20.01.2023 को थाना फरधान पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त मो० इशतियाक खा पुत्र इशहाक खां नि०ग्राम अगगर बुजुर्ग थाना फरधान जनपद खीरी को संबंधित केस नं० 483/22 धारा 125 द०प्र०सं० को गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

मो० इशतियाक खा पुत्र इशहाक खां नि०ग्राम अगगर बुजुर्ग थाना फरधान जनपद खीरी

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ०नि० देवकरन शर्मा, थाना फरधान
2. का० नितेश कुमार

## थाना मितौली पुलिस द्वारा, 01 नफर वारंटी अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र कन्धई को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 20.01.2023 को थाना मितौली पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र कन्धई निवासी कानाखेडा थाना मितौली खीरी को गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

राजेन्द्र पुत्र कन्धई निवासी कानाखेडा थाना मितौली खीरी

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:**

- 1.उ0नि0 रामबाबू शर्मा, थाना मितौली
- 2.हे0का0 राजकुमार सिंह, थाना मितौली
- 3.का0 ब्रजेश तिवारी, थाना मितौली



**थाना मितौली पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त निर्मल कुमार उर्फ लाला पुत्र रामभजन वर्मा को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 19.01.23 को थाना मितौली पुलिस द्वारा अभियुक्त निर्मल कुमार उर्फ लाला पुत्र रामभजन वर्मा नि० ग्राम मुरई ताजपुर थाना मितौली जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बंध मे थाना मितौली पर मु०अ०सं० 31/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

**थाना मितौली पुलिस द्वारा, 750 ग्राम गांजा बरामद कर अभियुक्त अजय कुमार पुत्र रामप्रकाश गौतम को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 19.01.23 को थाना मितौली पुलिस द्वारा अभियुक्त अजय कुमार पुत्र रामप्रकाश गौतम नि० अबगावा थाना मितौली जनपद खीरी को 750 ग्राम गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बंध मे थाना मितौली पर मु०अ०सं० 30/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

## वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

1. थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 43/22 धारा 376डी/366/328/343 भादवि में वांछित अभियुक्त सोनू सिंह उर्फ रमाशंकर सिंह पुत्र राजकुमार नि0 अलावलपुर थाना पिहानी जनपद हरदोई को गिरफ्तार किया गया।
2. थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अ0सं0 4217/10 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में वारंटी अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश नि0 धारा थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
3. थाना फरधान पुलिस द्वारा अ0सं0 483/22 भरणपोषण अधिनियम में वारंटी अभियुक्त मो0 इस्तयाक खां पुत्र इसहाक खां नि0 अगगर बुजुर्ग थाना फरधान जनपद खीरी।

## अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 208 लीटर अवैध शराब बरामद कर 13अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **208 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **03 अदद अवैध शराब भट्टी** बरामद कर **13 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **13 अभियोग** पंजीकृत किए गए।